



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 31—सितम्बर 6, 2013 (भाद्रपद 9, 1935)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 31—SEPTEMBER 6, 2013 (BHADRA 9, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 जुलाई 2013

सं. 8/68/2012-एनएससी--भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III खंड-4 में दिनांक 01 जून 2005 को अधिसूचना संख्या 85 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के दिनांक 01.06.2005 के संकल्प सं. ए-11011/1/2005-प्रशासन-I के अनुसरण में, निम्नलिखित व्यक्तियों को, प्रत्येक के नाम के आगे दिखाई गई तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है:--

- (i) प्रो. विश्वनाथ गोलदार, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकनामिक ग्रोथ, दिल्ली, दिनांक 20 जून, 2013 से
- (ii) प्रो. एस. महेन्द्र देव, निदेशक व कुलपति, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई, दिनांक 05 जुलाई, 2013 से
- (iii) प्रो. राहुल मुखर्जी, प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता, दिनांक 20 जुलाई, 2013 से
- (iv) श्री रमेश, कोल्लि, सेवा-निवृत्त अपर महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली, दिनांक 08 जुलाई, 2013 से

2. अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा की शर्तें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 10 मई, 2006 को अधिसूचना संख्या 465 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार की दिनांक 08 मई, 2006 की अधिसूचना सं. ए-11011/1/2005-प्रशासन-I (खंड-IV) के द्वारा अधिशासित होंगी आयोग के सदस्यों को भारत सरकार में सचिव का दर्जा प्राप्त होगा।

सतनाम सिंह बधावन
संयुक्त सचिव

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली-110068, दिनांक 8 अगस्त 2013

आईजी/प्रशा.(ग.)/परि.-4/भाग/2012--इग्नू अधिनियम 1985 (1985 के सं. 50) की धारा 25(2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंध बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.05.2012 को हुई 113वीं बैठक में बोर्ड ने इग्नू अधिनियम के परिनियम-4 के खंड 1(ii)(क) में निम्नलिखित संशोधन किए हैं। बोर्ड ने विश्वविद्यालय में अध्ययन विद्यापीठ निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 19.09.2012 एवं 05.01.2013 को हुई 115वीं एवं 117वीं बैठकों में उसे ही पुनः स्थापित किया है।

परिनियम 4--निदेशक

संशोधन के बाद, परिनियम 4 के अंतर्गत संशोधित खंड 1(ii)(क) को निम्न प्रकार पढ़ा जाए:--

खंड 1(ii)(क): 'कुलपति महोदय की संस्तुति पर प्रबंध बोर्ड द्वारा विद्यापीठ के प्रोफेसरों (क्रमावर्तन से) में से एक विद्यापीठ के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा और यदि विद्यापीठ में केवल एक प्रोफेसर या कोई प्रोफेसर उपलब्ध/योग्य न होने पर विद्यापीठ में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर के वरिष्ठतम अध्यापक को क्रमावर्ती आधार पर निदेशक का प्रभार दिया जाएगा'।

एस. वी. एस. चौधरी
कुलसचिव

दिनांक 14 अगस्त 2013

आईजी/प्रशा.(गव.)/डीईसी/2013/3148--दूर शिक्षा परिषद् एवं प्रबंध बोर्ड की क्रमशः दिनांक 08.06.2012 एवं 19.09.2012 को आयोजित 40वीं एवं 115वीं बैठकों में लिए गए निर्णयों के साथ पठित इग्नू अधिनियम 1985 (सं. 50) के प्रावधानों के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति ने इग्नू के दूर शिक्षा परिषद् से संबंधित इग्नू के परिनियम 28 के निरस्तीकरण का अनुमोदन कर दिया है जैसा कि मा. स.वि.मं. के पत्र सं. एफ 6-20/2010-डी एल दिनांक 22.02.2013 द्वारा सूचित किया गया है।

तदनुसार, इग्नू अधिनियम के परिनियम 28 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और हटा दिया गया है।

एस. वी. एस. चौधरी
कुलसचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 22nd July 2013

No. 8/68/2012-NSC—In pursuance of the Government of India Resolution No. A-11011/1/2005-Ad.I dated 1.6.2005 published as Notification No. 85 dated 1st June 2005 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, the following persons have been nominated as part-time Members in the National Statistical Commission, with effect from the date mentioned against each name. The tenure of each Member will be three years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

- (i) Prof. Bishwanath Goldar, Professor, Institute of Economic Growth, Delhi w.e.f 20th June, 2013.
- (ii) Prof. S. Mahendra Dev, Director & Vice Chancellor, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai w.e.f 5th July, 2013.
- (iii) Prof. Rahul Mukerjee, Professor, Indian Institute of Management, Kolkata w.e.f 20th July, 2013.
- (iv) Shri Ramesh Kolli, Retired Addl. Director General, Central Statistics Office, New Delhi w.e.f 8th July, 2013.

2. The appointment, tenure and service conditions of the part-time Members shall further be governed by Government of India Notification No. A-11011/1/2005-Ad-I (Vol.IV) dated 8th May 2006 published as Notification No. 465 dated 10th May 2006 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section-(ii). The Members of the Commission will have the status of a Secretary to the Government of India.

S. S. BADHAWAN
Jt. Secy.

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi-110068, the 8th August 2013

IG/Admn.(G)/ST.4/Pt./2012—In exercise of the powers vested in the Board of Management under the provisions of Section 25(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board at its 113th Meeting held on 31.05.2012 had made the following amendments to Clause (1)(ii)(a) of Statute 4 of the IGNOU Act. The Board re-affirmed the same in its 115th & 117th meetings held on 19-09-2012 & 05-01-2013 concerning the appointment of Directors of the Schools of Studies in the University.

Statute 4—The Directors

After amendment, the amended clause (1)(ii)(a) under Statute 4 shall be read as under:

Clause (1)(ii)(a): 'A Director of a School shall be appointed from amongst the Professors (by rotation) of the School by the Board of Management on the recommendations of the Vice Chancellor and in case there is only one Professor or no Professor available/eligible in the School, the senior-most teacher at the level of Associate Professor in the School shall be given the charge of the Director by rotation.

S. V. S. CHAUDHARY
Registrar

The 14th August 2013

IG/Admn.(G)/DEC/2013/3148—In terms of the provisions of IGNOU Act, 1985 (No. 50), read with the decisions of the Distance Education Council and the Board of Management of IGNOU taken at their 40th and 115th meetings held on 08-06-2012 & 19-09-2012 respectively, the President of India in his capacity as the Visitor of the Indira Gandhi National Open University (IGNOU), has approved repealing of Statute 28 of IGNOU dealing with the Distance Education Council, as conveyed by the MHRD vide their letter No. F. 6-20/2010-DL dt. 22.02.2013.

Accordingly, Statute 28 of IGNOU Act hereby stands repealed and deleted with immediate effect.

S. V. S. CHAUDHARY
Registrar

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013
www.dop.nic.in